

Perfect solution to all problems

Tips, Tricks, General Knowledge, Current Affairs, Latest Sample,
Previous Year, Practice Papers with solutions.

CBSE 10th Hindi 2016 Unsolved Paper All India

Buy solution: <http://www.4ono.com/cbse-10th-hindi-solved-previous-year-papers/>

Note

This pdf file is downloaded from www.4ono.com. Editing the content or publicizing this on any blog or website without the written permission of [Rewire Media](http://www.4ono.com) is punishable, the suffering will be decided under

DMCA

CBSE 10th Hindi 2016 Unsolved Paper

All India

TIME - 3HR. | QUESTIONS - 18

THE MARKS ARE MENTIONED ON EACH QUESTION

- (i) इस प्रश्न पत्र के चार खंड हैं क, ख, ग और घ।
 (ii) चारों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है।
 (iii) यथासंभव प्रत्येक खंड के उत्तर क्रमशः दीजिए।

SECTION – A

प्रश्न 1. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए:

महात्माओं और विद्वानों का सबसे बड़ा लक्षण है- आवाज़ को ध्यान से सुनना। यह आवाज़ कुछ भी हो सकती है। कौओं की कर्कश आवाज़ से लेकर नदियों की छलछल तक। मार्टिन लूथर किंग के भाषण से लेकर किसी पागल के बड़बड़ाने तक। अमूमन ऐसा होता नहीं। सच यह है कि हम सुनना चाहते ही नहीं। बस बोलना चाहते हैं। हमें लगता है कि इससे लोग हमें बेहतर तरीके से समझेंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं। हमें पता ही नहीं चलता और अधिक बोलने की कला हमें अनसुना करने की कला में पारंगत कर देती है। एक मनोवैज्ञानिक ने अपने अध्ययन में पाया कि जिन घरों के अभिभावक ज्यादा बोलते हैं, वहाँ बच्चों में सही-गलत से जुड़ा स्वाभाविक ज्ञान कम विकसित हो पाता है, क्योंकि ज्यादा बोलना बातों को विरोधाभासी तरीके से सामने रखता है और सामने वाला बस शब्दों के जाल में फँसकर रह जाता है। बात औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों स्थितियों में हम दूसरे की न सुन, बस हावी होने की कोशिश करते हैं। खुद ज्यादा बोलने और दूसरों को अनुसना करने से जाहिर होता है कि हम अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं और दूसरों के बारे में कम। ज्यादा बोलने वालों के दुश्मनों की भी संख्या ज्यादा होती है। अगर आप नए दुश्मन बनाना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों से ज्यादा बोलें और अगर आप नए दोस्त बनाना चाहते हैं, तो दुश्मनों से कम बोलें। अमेरिका के सर्वाधिक चर्चित राष्ट्रपति रूजवेल्ट अपने माली तक के साथ कुछ समय बिताते और इस दौरान उनकी बातें ज्यादा सुनने की कोशिश करते। वह कहते थे कि लोगों को अनुसना करना अपनी लोकप्रियता के साथ खेलवाड़ करने जैसा है। इसका लाभ यह मिला कि ज्यादात अमेरिकी नागरिक उनके सुख में सुखी होते, और दुःख में दुखी।

- (क) अनुसना करने की कला क्यों विकसित होती है?
 (ख) अधिक बोलने वाले अभिभावकों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों?
 (ग) अधिक बोलना किन बातों का सूचक है?
 (घ) रूजवेल्ट की लोकप्रियता का क्या कारण बताया गया है?
 (ङ) तर्कसम्मत टिप्पणी कीजिए- "हम सुनना चाहते ही नहीं।"
 (च) अनुच्छेद का मूल भाव तीन-चार वाक्यों में लिखिए।

(ग) अधिक बोलना इन बातों का सूचक है कि हम अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। दूसरों के बारे में हम कम सोचते हैं।

(घ) वे दूसरों की बातों को अधिक से अधिक सुनने का प्रयास करते थे और कम से कम बोलते थे। यह उनकी लोकप्रियता का कारण बताया गया है।

(ड) जब हम खुद ज्यादा बोलते हैं और दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। इस बात से पता चलता है कि हम दूसरों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। बस अपनी कहना चाहते हैं।

(च) हमें दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इस तरह हम अपने लोगों के मध्य लोकप्रिय होंगे। अच्छे दोस्त बनाएँगे। साथ ही हमारे कोई दुश्मन नहीं होंगे।

प्रश्न 2. निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए:

यादें होती हैं गहरी नदी में उठी भँवर की तरह
नसों में उतरती कड़वी दवा की तरह
या खुद के भीतर छिपे बैठे साँप की तरह
जो औचकके में देख लिया करता है
यादें होती हैं जानलेवा खुशबू की तरह
प्राणों के स्थान पर बैठे जानी दुश्मन की तरह
शरीर में धँसे उस काँच की तरह
जो कभी नहीं दिखता
पर जब-तब अपनी सत्ता का
भरपूर एहसास दिलाता रहता है
यादों पर कुछ भी कहना
खुद को कठघरे में खड़ा करना है
पर कहना ज़रूरत नहीं, मेरी मजबूरी है।

- (क) यादों को गहरी नदी में उठी भँवर की तरह क्यों कहा गया है?
(ख) यादों को जानी दुश्मन की तरह मानने का क्या आशय है?
(ग) शरीर में धँसे काँच से यादों का साम्य कैसे बिठाया जा सकता है?
(घ) आशय स्पष्ट कीजिए-
"यादों पर कुछ भी कहना
खुद को कठघरे में खड़ा करना है।"

SECTION – B

- प्रश्न 3. (i) शब्द क्या है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।
(ii) शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर क्या कहलाता है?

प्रश्न 4. निर्देशानुसार उत्तर दीजिए:

- (i) वह पुस्तक लेने बाजार गया। (मिश्र वाक्य में बदलकर लिखिए)
(ii) तुमने जो घड़ी खरीदी, वह अच्छी थी। (सरल वाक्य में बदलिए)
(iii) वह वाचनालय जाकर समाचार पत्र पढ़ने लगा। (संयुक्त वाक्य में बदलिए)

प्रश्न 5. (क) निम्नलिखित का विग्रह करके समास का नाम लिखिए:

दहेज-प्रथा, महात्मा

(ख) निम्नलिखित का समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए:

नया जो युवक, ध्यान में मग्न

प्रश्न. 6. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए:

- (क) हम यहाँ सकुशलतापूर्वक हैं।
- (ख) आज लगभग कोई एक दर्जन छात्र नहीं आए हैं।
- (ग) कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें।
- (घ) मोहन ने घर गया और सो गया।

प्रश्न. 7. निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए:

नाकों चने चबाना, बाल-बाल बचना।

SECTION – C

प्रश्न. 8. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- (क) ओचुमेलॉव की दो चारित्रिक विशेषताओं का अपने शब्दों में उल्लेख कीजिए।
- (ख) 'अब कहँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले' पाठ के आधार पर लिखिए कि समुद्र के गुस्से का क्या कारण था? उसने अपने गुस्सा कैसे व्यक्त किया?
- (ग) सआदत अली कौन था? कर्नल उसे अवध के तख्त पर क्यों बिठाना चाहता था?

प्रश्न. 9. 'झेन की देन' पाठ में जापानी लोगों को मानसिक रोग होने के क्या-क्या कारण बताए गए हैं? आप इनसे कहाँ तक सहमत हैं? तर्क सहित लिखिए।**प्रश्न. 10. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए:**

संसार की रचना भले ही कैसे हुए हो लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर, आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी-बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था अब टुकड़ों में बँटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है।

- (क) मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी-बड़ी दीवारें खड़ी कर दीं- कथन का क्या आशय है?
- (ख) परिवार के टुकड़ों में बँटकर एक दूसरे से दूर होने के क्या कारण हैं?
- (ग) आशय समझाइए धरती किसी एक की नहीं है।

प्रश्न. 11. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- (क) बिहारी ने ईश्वर प्राप्ति में किन साधनों को साधक और किनको बाधक माना है?
- (ख) महादेवी वर्मा अपने दीपक को किस प्रकार जलने के लिए कह रही है और क्यों?
- (ग) कर चले हम फ़िदा गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है?

प्रश्न. 12. 'आत्मत्राण' कवित में कवि की प्रार्थना से क्या संदेश मिलता है? अपने शब्दों में लिखिए।**प्रश्न. 13. घर वालों के मना करने पर भी टोपी का लगाव इफ़्रन के घर और उसकी दादी से क्यों था? दोनों के अनजान, अटूट रिश्ते के बारे में मानवीय मूल्यों की दृष्टि से अपने विचार लिखिए।**

SECTION – D

प्रश्न. 14. दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए:

(क) मित्रता

- मित्रता का महत्व
- अच्छे मित्र के लक्षण
- लाभ-हानि

(ख) दहेज प्रथा- एक अभिशाप

- सामाजिक समस्या
- रोकथाम के उपाय
- युवकों का कर्तव्य

(ग) कम्प्यूटर

- उपयोगी वैज्ञानिक आविष्कार
- विविध क्षेत्रों का कंप्यूटर
- लाभ-हानि

प्रश्न. 15. आपके नाम से प्रेषित एक हजार रु. के मनीऑर्डर की प्राप्ति न होने का शिकायत पत्र अधीक्षक, पोस्ट ऑफिस को लिखिए।

प्रश्न. 16. विद्यालय में आयोजित होने वाली वाद-विवाद प्रतियोगिता के लिए एक सूचना लगभग 30 शब्दों में साहित्यिक क्लब के सचिव की ओर से विद्यालय सूचना पट के लिए लिखिए।

प्रश्न. 17. खाद्य-पदार्थों में होने वाली मिलावट के बारे में मित्र के साथ हुए संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए।

प्रश्न. 18. अपने पुराने मकान के बेचने संबंधी विज्ञापन का आलेख लगभग 25 शब्दों में तैयार कीजिए।



Buy solution: <http://www.4ono.com/cbse-10th-hindi-solved-previous-year-papers/>